

**नकली शहद की फैक्टरी पकड़ी:** शक्कर के शीरे में सोंफ व दालचीनी का पाउडर मिलाकर बनाता था शहद, 15 ग्राम से लेकर 500 ग्राम शीशी में करता था पैक

जबलपुर 12 दिन पहले



जबलपुर में नकली शहद का भंडाफोड़, शक्कर के शीरे से तैयार करते थे नकली शहद।

- हनुमानताल पुलिस ने चौधरी मोहल्ले में पिछले तीन साल से संचालित नकली शहद की फैक्ट्री का किया खुलासा
- सरगना के खिलाफ फूड विभाग की शिकायत पर धोखाधड़ी व खाद्य सुरक्षा की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया

जबलपुर में अब नकली शहद की फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ। गोहलपुर सीएसपी अखिलेश गौर की अगुवाई में पुलिस टीम ने हनुमानताल क्षेत्र में तीन साल से संचालित इस अवैध कारोबार का खुलासा किया। आरोपी शक्कर के शीरे में दालचीनी व सोंफ का पाउडर मिलाकर नकली शहद तैयार करता था। इसे 15, 20, 30, 50, 100 व 500 ग्राम की शीशी में पैक कर श्री ओंकार हनी नाम से बेचता था। पुलिस ने आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में पैक शहद, खाली शीशी, रैपर सहित अन्य सामग्री जब्त किए हैं।

सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिंधी कैंप चौधरी मोहल्ला निवासी ताराचंद अहिरवार नकली शहद बनाकर बेचता है। इस सूचना पर बुधवार रात को उसके घर में दबिश दी गई। आरोपी घर में 200-200 रुपए मजदूरी पर पांच महिलाओं से शक्कर का शीरा बनाकर उसे शहद का रैपर लगाकर पैक करवाते हुए मिला।

#### **100 किलो शीरा और बड़ी मात्रा में रैपर मिला**

हनुमानताल पुलिस ने खाद्य निरीक्षक विनोद धुर्वे के साथ घर की सर्चिंग में एक गंज जब्त किया। उसमें 100 किलो के लगभग शक्कर का शीरा तैयार किया गया था। इसे 8 ग्राम से 500 ग्राम की शीशी में पैक किया जा रहा था। आरोपी ताराचंद अहिरवार ने पूछताछ के दौरान ओमकार ट्रेडिंग के नाम से शहद का कारोबार करने का लाइसेंस होना दिखाया।



आरोपी ताराचंद अहिरवार तीन साल से बना रहा था नकली शहद।

कमरे में एक गंज में शक्कर का शीरा चूल्हे पर उबलता हुआ मिला। पास में ही 10 किलो शक्कर, 500 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम दालचीनी पैकेट में रखी मिली। मौके पर 15 हजार के लगभग रैपर, 10 हजार के लगभग खाली शीशी मिलीं।

#### 1500 बोतलों में 25 लीटर नकली शहद जब्त

पुलिस ने मौके से श्री ओंकार हनी नाम के रैपर और लेबल लगी हुई 15, 30, 50, 100, 500 एम.एल. की लगभग 1500 छोटी-बड़ी बोतलों में शहद जब्त किए। इसमें लगभग 25 लीटर नकली शहद भरी हुई थी। नकली शहद बनाकर वह बाजार में दुकानदारों को श्री ओंकार हनी के नाम से बेचता था। उसके यहां से दो पैकिंग मशीन, शहर भरने वाली एक मशीन जब्त किए।



हनुमानताल पुलिस ने आरोपी के घर से तैयार नकली शहद, पैकिंग मशीन आदि जब्त किए।


#### घर से डिलीवरी गाड़ी से करता था सप्लाई

आरोपी तैयार शहद को शहर के मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों के दुकानों पर सप्लाई करता था। इसके अलावा गली-मोहल्ले की किराना दुकानों पर सप्लाई करता था। इसके लिए उसने सप्लाई गाड़ी रखा है। वह पिछले तीन साल से नकली शहद बनाकर बेच रहा था। 15 ग्राम शहद वह 8 रुपए, 30 ग्राम शहद 20 रुपए, 100 का शहद 50 रुपए में और 500 ग्राम का शहद 300 रुपए में बेचता था।

#### फोटो में देखे नकली शहद का काला कारोबार



शक्कर का तैयार कर रहा था शीरा, इसी को शहद बनाकर पैक करता था।



15 ग्राम से लेकर 500 एमएल की शीशी में पैक होता था नकली शहद।



श्री ओंकार हनी नाम के रैपर और लेबल लगी शीशी जब्त हुई।



सीएसपी गोहलपुर मौके पर जांच करते हुए।



बोरिया में खाली शीशी सहित अन्य माल रखा था।



बड़ी मात्रा में खाली शीशी पुलिस ने जब्त किए।



सीएसपी अखिलेश गौर अलग-अलग मौके से जब्त सामग्री को जब्त करते हुए।



खाली शीशी में आरोपी पैक कर शहर में धार्मिक स्थलों पर करता था सप्लाई।



नकली शहद की 30 ग्राम की शीशी की कीमत 20 रुपए अंकित थी।



आरोपी 100 ग्राम की नकली शहद की कीमत 50 रुपए में बेच रहा था।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/jabalpur/news/fake-honey-cracked-honey-was-made-by-mixing-fennel-and-cinnamon-powder-in-sugar-molasses-used-to-pack-in-a-bottle-of-15-grams-to-500-grams-128355608.html>